



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रस्ताधारणः

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्ति ए से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 1973/भाद्र 19, 1895

No. 208]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1973/BHADRA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th September 1973

**S.O. 476(E).**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Lakwa Wells Nos. LKA, LT-3, LT-4, 87 and 63 to Lakwa GGS No. 1 in Sibsaigar Distt. Assam, Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz., the Sub-Divisional Officer, Sibsaigar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from lakwa wells Nos. LKA, LT-3, LT-4, 87 and 83 to Lakwa GGS No. 1.

State: Assam

Distt. Sibsagar

Taluk: Silakuti

Village	Survey No.	Hectare	Ares	Centiares
Sola Chah Baghicha	63 Kha . . .	0	1	34
	17 Kha . . .	0	4	68
	18 Kha . . .	0	0	40
	19 Kha . . .	0	0	27
	82 Kha and Ga . . .	0	2	94

[No. 12018/3/73/L&L/I.]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1973

का० प्रा० 476(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि लकुवा कूप नम्बर एल के ए, एल टी-3, एल टी-4, 87 और 63 से लकुवा जी० जी० एस० नं० 1 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद पाषण्ड अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है,

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपेक्ष अवसर प्रमहल पदाधिकारी, शिबसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आपेक्ष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवायी व्यभिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

## अनुसूची

सकवा कूप नम्बर : एल केए, एल० टी०-3, एल टी-4, 87 और 63 से सकवा  
जी० जी० एम० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य-असम

ज़िला : शिवसागर

तालुका : सिलाकुटी

ग्राम	मर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे
सोला चाहू बगीचा	63 ख	0	1	34
	17 ख	0	4	68
	18 ख	0	0	40
	19 ख	0	0	27
	82 ख और ग	0	2	94

[सं० 12018/3/73/एल और एल/1]

S.O. 477(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar G.G.S. No. 1 to Lakwa GGS No. 1 in Sibsagar Distt., Assam. Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz., the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar GGS No to Lakwa GGS No. 1.

STATE: Assam	DISTT : Sibsagar	TALUK : Meteka	Bongaon
Village	Survey No.	Hectare	Ares Centiares
Pathalial	502 Kha . . . . .	0	1 87
	501 Kha . . . . .	0	2 68
	500 Kha . . . . .	0	8 56
	495 Kha and Unga . . . . .	0	10 70
	496 Kha . . . . .	0	1 74
	497 Kha . . . . .	0	6 69
	555 Kha . . . . .	0	12 04
	553 Kha . . . . .	0	2 94
	514 Kha . . . . .	0	3 08
	513 Kha . . . . .	0	3 48
	509 Kha . . . . .	0	2 14
	508 Kha . . . . .	0	1 34
	507 Kha . . . . .	0	1 07
	505 Kha . . . . .	0	5 89
	504 Kha . . . . .	0	1 87
	503 Kha . . . . .	0	2 01
	488 Kha . . . . .	0	2 68
	493 Kha . . . . .	0	2 54
	492 Kha . . . . .	0	3 34

STATE : Assam

DISTT : Sibsagar

TALUK : Salaguri

Village	Survey No.	Hectare	Ares	Centiares
Ailamukh	102 Kha	0	4	01
	105 Kha	0	4	01
	106 Kha	0	3	61
	107 Kha	0	3	61
	108 Kha	0	3	61
	112 Kha	0	2	01
	113 Kha	0	2	94
	114 Kha	0	3	08
	115 Kha	0	2	68
	116 Kha	0	3	21
	117 Kha	0	3	34
	118 Kha	0	2	68
	119 Kha	0	4	01
	120 Kha	0	5	08
	122 Kha	0	4	01
	124 Kha	0	4	01
	125 Kha	0	3	34
	126 Kha	0	2	68
	127 Kha	0	4	01
	130 Kha	0	5	35
	132 Kha	0	0	67
	133 Kha	0	5	35
	135 Kha	0	5	08
	138 Kha	0	5	35
	103 Kha	0	4	41

STATE : Assam

DISTT : Sibsagar

TALUK : Jokali

Village	Survey No.	Hectare	Ares	Centi ares
Mesagarh Gohain	972 Kha	0	1	34
	971 Kha	0	4	41
	974 Kha	0	2	41
	975 Kha	0	2	14
	724 Kha	0	4	82
	1028 Kha	0	5	35
	1027 Kha	0	6	69
	1026 Kha	0	5	48
	1024 Kha	0	1	07
	976 Kha	0	2	68
	1023 Kha	0	8	03
	1021 Kha	0	2	81
	1025 Kha	0	1	34
	1047 Kha	0	4	68
	1048 Kha	0	7	09
	1049 Kha	0	5	62
	1050 Kha	0	4	41
	1052 Kha	0	4	82

STATE : Assam

DISTT : Sibsagar

TAUK : Jokali

Village	Survey No.	Hectare	Ares	Centiares
Mesagarh Gohain	459 Kha	0	7	76
	1051 Kha	0	2	01
	1054 Kha	0	5	08
	1053 Kha	0	5	62
	1055 Kha	0	0	67
	716 Ka	0	2	94
	713 Kha	0	7	63
	522 Kha	0	6	42
	523 Ka	0	2	94
	520 Kha	0	3	21
	520 Gha	0	9	10
	367 Kha	0	3	48
	352 Ka	0	20	74
	562 Ka	0	6	69
	413 Kha	0	21	41
	361 Kha	0	4	01
	401 Kha	0	3	48
	351 Kha	0	0	40
	463 Ka	0	2	01
	414 Ka	0	1	74
	354 Kha	0	3	34
	402 Kha	0	3	08
	389 Kha	0	2	41
	386 Kha	0	3	08
	385 Kha	0	1	07
	387 Kha	0	5	35
	384 Kha	0	2	68
	353 Kha	0	5	35
	556 Kha	0	7	36
	360 Kha	0	4	01
	364 Kha	0	5	08
	362 Kha	0	3	75
	365 Kha	0	1	07
	714 Kha	0	3	75
	461 Kha	0	2	01
	415 Kha	0	4	15
	977 Kha	0	4	68
	715 Kha	0	0	94
	722 Ka	0	6	42
	524 Kha	0	2	94
	1030 Kha	0	4	95
	1031 Kha	0	1	61
	731 Kha	0	0	27
	732 Kha	0	0	67

[No. 12018/3/73/LRL/II.]

C. R. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

का० प्र० सं० 477 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर जी जी एस 1 से लकवा जी जी०एस नं० 1 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद पावद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अनुरा: अब, रीडोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आक्षेप एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप अथवा प्रमंडल पदाधिकारी, शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवायी व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायो की माफत ।

### अनुसूची

रुद्रसागर जी०जी० एम० नं० ०१ में लकवा जी०जी०एस०न० १ तक की पाइप लाइन

राज्य असम	जिला शिवसागर	तालुका मैटेका बोनगांव			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे	
परिचलयाल	502 ख	0	1	87	
	501 ख	0	2	68	
	500 ख	0	8	56	
	495 ख और ड	0	10	70	
	496 ख	0	1	74	
	497 ख	0	6	69	
	555 ख	0	12	04	
	553 ख	0	2	94	
	514 ख	0	3	08	
	513 ख	0	3	48	
	509 ख	0	2	14	
	508 ख	0	1	34	
	507 ख	0	1	07	
	505 ख	0	5	89	
	504 ख	0	1	87	
	503 ख	0	2	01	
	488 ख	0	2	68	
	493 ख	0	2	54	
	494 ख	0	3	34	

राज्य : असम		जिला : सिवसागर		तालुका : सालागुरी	
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे	
अयलामुख	102 ख	0	4	01	
	105 ख	0	4	01	
	106 ख	0	3	61	
	107 ख	0	3	61	
	108 ख	0	3	61	
	112 ख	0	2	01	
	113 ख	0	2	94	
	114 ख	0	3	08	
	115 ख	0	2	68	
	116 ख	0	3	21	
	117 ख	0	3	34	
	118 ख	0	2	68	
	119 ख	0	4	01	
	120 ख	0	5	08	
	122 ख	0	4	01	
	124 ख	0	4	01	
	125 ख	0	3	34	
	126 ख	0	2	68	
	127 ख	0	4	01	
	130 ख	0	5	35	
	132 ख	0	0	67	
	133 ख	0	5	35	
	135 ख	0	5	08	
	138 ख	0	5	35	
	103 ख	0	4	41	

राज्य : असम		जिला : सिवसागर		तालुका : जुकताली	
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे	
मेसागर गोहायन	972 ख	0	1	34	
	971 ख	0	4	41	
	974 ख	0	2	41	
	975 ख	0	2	14	
	724 ख	0	4	82	

राज्य	आसाम	जिला - मिवसागर	नाशुका - जकखाती	
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएर
मेसागर तेशायन	1028 ख	0	5	35
	1027 ख	0	6	69
	1026 ख	0	5	48
	1024 ख	0	1	07
	976 ख	0	2	68
	1023 ख	0	8	03
	1021 ख	0	2	81
	1025 ख	0	1	34
	1047 ख	0	4	68
	1048 ख	0	7	09
	1049 ख	0	5	62
	1050 ख	0	4	41
	1052 ख	0	4	82
	459 ख	0	7	76
	1051 ख	0	2	01
	1054 ख	0	5	08
	1053 ख	0	5	62
	1055 ख	0	0	67
	716 क	0	2	94
	713 ख	0	7	63
	522 ख	0	6	42
	523 ख	0	2	94
	520 ख	0	3	21
	520 घ	0	9	10
	367 ख	0	3	48
	352 क	0	20	74
	562 क	0	6	69
	413 ख	0	21	41
	361 ख	0	4	01
	401 ख	0	3	48
	351 ख	0	0	40
	463 क	0	2	01
	414 क	0	1	74
	354 ख	0	3	34
	402 ख	0	3	08

राज्य : असम	जिला : सिवसागर	ता : लुकाजुक्ताली		
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे
मेसागर गोहायन	389 ख	0	2	41
	386 ख	0	3	08
	385 ख	0	1	07
	387 ख	0	5	35
	384 ख	0	2	68
	353 ख	0	5	35
	556 ख	0	7	36
	360 ख	0	4	01
	364 ख	0	5	08
	362 ख	0	3	75
	365 ख	0	1	07
	714 ख	0	3	75
	461 ख	0	2	01
	415 ख	0	4	15
	977 ख	0	4	68
	715 ख	0	0	94
	722 क	0	6	42
	524 ख	0	2	94
	1030 ख	0	4	95
	1031 ख	0	1	61
	731 ख	0	0	27
	732 ख	0	0	67

[संख्या 12018/3/73/एल और एल / II]

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सी० भार० वैद्यनाथन

